

Series : RPQS4



SET~3

प्रश्न-पत्र कोड
Q.P. Code **67/4/3**

रोल नं.
Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।
Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.



लेखाशास्त्र ACCOUNTANCY



निर्धारित समय : 3 घण्टे
Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 80
Maximum Marks : 80

नोट :

- (I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 43 हैं।
- (II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।
- (III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 34 प्रश्न हैं।
- (IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
- (V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।

NOTE :

- (I) Please check that this question paper contains 43 printed pages.
- (II) Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- (III) Please check that this question paper contains 34 questions.
- (IV) **Please write down the Serial Number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.**
- (V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्न-पत्र में **34** प्रश्न हैं। **सभी प्रश्न अनिवार्य** हैं।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **दो** भागों में विभाजित है — **भाग क** तथा **भाग ख**।
- (iii) **भाग क** सभी परीक्षार्थियों के लिए **अनिवार्य** है।
- (iv) **भाग ख** के दो विकल्प हैं। परीक्षार्थियों को केवल **एक** ही विकल्प के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।

विकल्प I : वित्तीय विवरणों का विश्लेषण

विकल्प II : अभिकलित्र लेखांकन

- (v) प्रश्न संख्या **1** से **16** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **27** से **30** (भाग ख) बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है।
- (vi) प्रश्न संख्या **17** से **20** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **31** और **32** (भाग ख) लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **3** अंकों का है।
- (vii) प्रश्न संख्या **21** और **22** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **33** (भाग ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-I के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंकों का है।
- (viii) प्रश्न संख्या **23** से **26** (भाग क) तथा प्रश्न संख्या **34** (भाग ख) दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-II के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **6** अंकों का है।
- (ix) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, प्रत्येक भाग के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।

भाग क

(साझेदारी फर्मों तथा कम्पनियों के लिए लेखांकन)

1. अनीता तथा प्रियल एक फर्म की साझेदार थीं तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। 1 अप्रैल, 2024 को, उनके पूँजी खाते क्रमशः ₹ 3,00,000 तथा ₹ 4,00,000 का शेष दर्शा रहे थे। साझेदारी संलेख में पूँजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म ने ₹ 28,000 का लाभ अर्जित किया।

अनीता तथा प्रियल को पूँजी पर दिया गया ब्याज था :

- (A) अनीता ₹ 24,000, प्रियल ₹ 32,000
- (B) अनीता ₹ 16,000, प्रियल ₹ 12,000
- (C) अनीता ₹ 12,000, प्रियल ₹ 16,000
- (D) अनीता ₹ 16,800, प्रियल ₹ 11,200



General Instructions :

Read the following instructions carefully and follow them :

- (i) *This question paper contains **34** questions. **All** questions are **compulsory**.*
- (ii) *This question paper is divided into **two** parts — **Part A** and **Part B**.*
- (iii) ***Part A** is **compulsory** for all candidates.*
- (iv) ***Part B** has two options. Candidates have to attempt only **one** of the given options.*

Option I : Analysis of Financial Statements

Option II : Computerised Accounting

- (v) *Questions number **1** to **16** (Part A) and Questions number **27** to **30** (Part B) are Multiple Choice Questions. Each question carries **1** mark.*
- (vi) *Questions number **17** to **20** (Part A) and Questions number **31** and **32** (Part B) are Short Answer type questions. Each question carries **3** marks.*
- (vii) *Questions number **21** and **22** (Part A) and Question number **33** (Part B) are Long Answer type-I questions. Each question carries **4** marks.*
- (viii) *Questions number **23** to **26** (Part A) and Question number **34** (Part B) are Long Answer type-II questions. Each question carries **6** marks.*
- (ix) *There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in few questions in each of the parts.*

PART A

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

1. Anita and Priyal were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. On 1st April, 2024, their capital accounts showed balances of ₹ 3,00,000 and ₹ 4,00,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital @ 8% p.a. The firm earned a profit of ₹ 28,000 for the year ended 31st March, 2025.

Interest on capital allowed to Anita and Priyal was :

- (A) Anita ₹ 24,000, Priyal ₹ 32,000
- (B) Anita ₹ 16,000, Priyal ₹ 12,000
- (C) Anita ₹ 12,000, Priyal ₹ 16,000
- (D) Anita ₹ 16,800, Priyal ₹ 11,200

1



2. अभिकथन (A) : ख्याति एक अमूर्त परिसम्पत्ति है।

कारण (R) : ख्याति किसी फर्म की लोकप्रियता का वह मूल्य है जो सामान्य लाभों की अपेक्षा भविष्य में अधिक लाभ अर्जित करने से सम्बन्धित है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

- (A) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (B) अभिकथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (C) अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
- (D) अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) ग़लत है।

3. अयाचित पूँजी का वह एक भाग जिसे कम्पनी द्वारा केवल कम्पनी के समापन की स्थिति में माँगे जाने के लिए आरक्षित किया होता है, कहलाता है :

1

- (A) अभिदत्त परन्तु पूर्ण प्रदत्त नहीं पूँजी
- (B) अनिर्गमित पूँजी
- (C) अभिदत्त पूँजी
- (D) आरक्षित पूँजी

4. दिनेश, सिद्धार्थ तथा नैना एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया। इस तिथि को, फर्म के देनदार ₹ 2,10,000 थे तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान ₹ 20,000 था। विघटन पर ₹ 10,000 के देनदार डूब गए तथा शेष देनदारों से 90% प्राप्त हुआ। देनदारों से वसूली गई राशि होगी :

1

- (A) ₹ 1,71,000 (B) ₹ 2,00,000
- (C) ₹ 1,80,000 (D) ₹ 1,89,000



2. *Assertion (A)* : Goodwill is an intangible asset.

Reason (R) : Goodwill is the value of the reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits.

Choose the correct option from the following :

1

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct, but Reason (R) is **not** the correct explanation of Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is incorrect, but Reason (R) is correct.
- (D) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is incorrect.

3. A portion of the uncalled capital reserved by a company to be called only in the event of winding up of the company is called :

1

- (A) Subscribed but not fully paid capital
- (B) Unissued capital
- (C) Subscribed capital
- (D) Reserve capital

4. Dinesh, Siddharth and Naina were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. On 31st March, 2025, they decided to dissolve the firm. On this date, the firm had debtors amounting to ₹ 2,10,000 and provision for doubtful debts of ₹ 20,000. On dissolution, debtors of ₹ 10,000 proved bad and the remaining debtors realised 90%. Amount realised from debtors will be :

1

- (A) ₹ 1,71,000 (B) ₹ 2,00,000
- (C) ₹ 1,80,000 (D) ₹ 1,89,000



5. आशा, मनन तथा नियती एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 से, वे लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटने के लिए सहमत हुए। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आशा का अभिलाभ अथवा त्याग होगा :

1

- (A) त्याग $\frac{1}{6}$ (B) अभिलाभ $\frac{1}{6}$
(C) त्याग $\frac{1}{12}$ (D) अभिलाभ $\frac{1}{12}$

6. पिछले कुछ वर्षों में एक व्यवसाय ने ₹ 2,00,000 का औसत लाभ अर्जित किया। व्यवसाय की शुद्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य ₹ 17,00,000 है तथा समान व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। अधिलाभ की पूँजीकरण विधि द्वारा व्यवसाय की ख्याति का मूल्य होगा :

1

- (A) ₹ 17,00,000 (B) ₹ 2,00,000
(C) ₹ 3,00,000 (D) ₹ 30,000

7. (क) _____ ऋणपत्रों का संदर्भ उन ऋणपत्रों से है जहाँ पर भुगतान की अदायगी न कर पाने की स्थिति के उद्देश्य से कम्पनी की परिसम्पत्तियों पर एक प्रभार का सृजन किया जाता है।

1

- (A) अरक्षित (B) रक्षित
(C) परिवर्तनशील (D) पंजीकृत

अथवा

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि को उपयोग में **नहीं** लाया जा सकता है :

1

- (A) सदस्यों को पूर्ण भुगतान बोनस अंशों के निर्गमन के लिए
(B) कम्पनी के आरम्भिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए
(C) स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय के लिए
(D) स्वयं के अंशों का क्रय करने के लिए अर्थात् अंशों के पुनःक्रय के लिए



5. Asha, Manan and Niyati were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1. With effect from 1st April, 2025, they agreed to share profits and losses equally. Due to change in the profit sharing ratio, Asha's gain or sacrifice will be : 1

- (A) Sacrifice $\frac{1}{6}$ (B) Gain $\frac{1}{6}$
(C) Sacrifice $\frac{1}{12}$ (D) Gain $\frac{1}{12}$

6. A business earned an average profit of ₹ 2,00,000 during the last few years. The value of net assets of the business is ₹ 17,00,000 and the normal rate of return in a similar business is 10%. The value of goodwill of the business by capitalisation of super-profits method will be : 1

- (A) ₹ 17,00,000 (B) ₹ 2,00,000
(C) ₹ 3,00,000 (D) ₹ 30,000

7. (a) _____ debentures refer to those debentures where a charge is created on the assets of the company for the purpose of payment in case of default. 1

- (A) Unsecured (B) Secured
(C) Convertible (D) Registered

OR

(b) As per the provisions of Companies Act, 2013, the amount received as Securities Premium cannot be utilised to : 1

- (A) Issue fully paid bonus shares to the members
(B) Write off preliminary expenses of the company
(C) Purchase fixed assets
(D) Purchase its own shares, i.e. buyback of shares



8. अंकुर तथा अंगद एक फर्म के साझेदार थे तथा 8 : 7 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 जुलाई, 2024 को अंगद ने फर्म को ₹ 8,00,000 का एक ऋण दिया। कोई साझेदारी संलेख नहीं था। अंगद ने ऋण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की माँग की। 31 मार्च, 2025 को अंगद के ऋण पर देय ब्याज की राशि होगी :

- (A) ₹ 36,000 (B) ₹ 48,000
(C) ₹ 80,000 (D) ₹ 60,000

1

9. (क) रोहन तथा मीता एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 4 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उनकी पूँजी क्रमशः ₹ 3,00,000 तथा ₹ 2,00,000 थीं। उन्होंने फर्म के लाभों में $\frac{1}{5}$ भाग के लिए कबीर को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। कबीर अपनी पूँजी के रूप में ₹ 1,50,000 लाया। फर्म की ख्याति में कबीर का भाग था :

- (A) ₹ 50,000 (B) ₹ 20,000
(C) ₹ 1,00,000 (D) ₹ 2,50,000

1

अथवा

(ख) रवि, निशा तथा प्रिया एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। रवि सेवानिवृत्त हो गया तथा संचय एवं परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक समायोजनों को करने के पश्चात् उसके पूँजी खाते में ₹ 2,40,000 का शेष था। निशा तथा प्रिया उसके दावे के पूर्ण निपटान में उसे ₹ 2,70,000 का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। फर्म की ख्याति का मूल्य था :

- (A) ₹ 30,000 (B) ₹ 90,000
(C) ₹ 60,000 (D) ₹ 1,20,000

1

10. (क) रवि, सोहन तथा नीना एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 को सोहन सेवानिवृत्त हो गया तथा उसका भाग रवि तथा नीना ने 2 : 1 के अनुपात में ले लिया। रवि तथा नीना के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात होगा :

- (A) 3 : 2 (B) 2 : 1
(C) 5 : 4 (D) 7 : 3

1

अथवा



8. Ankur and Angad were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 8 : 7. On 1st July, 2024, Angad advanced a loan of ₹ 8,00,000 to the firm. There is no partnership deed. Angad demands interest on loan @ 10% p.a. On 31st March, 2025, the amount of interest on loan due to Angad will be :

1

- (A) ₹ 36,000 (B) ₹ 48,000
(C) ₹ 80,000 (D) ₹ 60,000

9. (a) Rohan and Meeta were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 4. Their capitals were ₹ 3,00,000 and ₹ 2,00,000 respectively. They admitted Kabir as a new partner for $\frac{1}{5}$ th share in the profits of the firm. Kabir brought ₹ 1,50,000 as his capital. Kabir's share in the goodwill of the firm was :

1

- (A) ₹ 50,000 (B) ₹ 20,000
(C) ₹ 1,00,000 (D) ₹ 2,50,000

OR

(b) Ravi, Nisha and Priya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. Ravi retired and the balance in his Capital Account after making necessary adjustments on account of reserves and revaluation of assets and re-assessment of liabilities was ₹ 2,40,000. Nisha and Priya agreed to pay him ₹ 2,70,000 in full settlement of his claim. The value of goodwill of the firm was :

1

- (A) ₹ 30,000 (B) ₹ 90,000
(C) ₹ 60,000 (D) ₹ 1,20,000

10. (a) Ravi, Sohan and Neena were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. On 1st April 2025, Sohan retired and his share was taken up by Ravi and Neena in the ratio of 2 : 1. The new profit sharing ratio between Ravi and Neena will be :

1

- (A) 3 : 2 (B) 2 : 1
(C) 5 : 4 (D) 7 : 3

OR



(ख) कुनाल, राज तथा लीला एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 को कुनाल सेवानिवृत्त हो गया। राज तथा लीला ने भविष्य के लाभों को 5 : 3 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। राज तथा लीला के मध्य अभिलाभ अनुपात होगा :

1

- (A) 5 : 3 (B) 3 : 2
(C) 21 : 11 (D) 7 : 5

11. (क) ₹ 25 प्रत्येक के 6,000 अंशों को ₹ 5 प्रति अंश की अन्तिम याचना राशि का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया। इन अंशों के पुनःनिर्गमन पर कम्पनी द्वारा दी जा सकने वाली बट्टे की अधिकतम राशि होगी :

1

- (A) ₹ 30,000 (B) ₹ 90,000
(C) ₹ 1,20,000 (D) ₹ 1,50,000

अथवा

(ख) ₹ 20 प्रत्येक के 5,000 अंशों का ₹ 4 प्रति अंश की दूसरी तथा अन्तिम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया गया। इन अंशों के पुनःनिर्गमन के समय कम्पनी द्वारा एकत्रित की जाने वाली न्यूनतम राशि होगी :

1

- (A) ₹ 20,000 (B) ₹ 80,000
(C) ₹ 1,00,000 (D) ₹ 1,20,000

12. निशि लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 80,000, 11% ऋणपत्रों का निर्गमन 9% प्रीमियम पर किया, जिनका शोधन 7% प्रीमियम पर करना था। निशि लिमिटेड की पुस्तकों में 'ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि खाता' कितनी राशि से डेबिट किया जाएगा ?

1

- (A) ₹ 7,20,000 (B) ₹ 8,80,000
(C) ₹ 5,60,000 (D) ₹ 8,00,000



13. रवि, सुनील तथा अमित एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 5 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 1 अप्रैल, 2025 को रवि सेवानिवृत्त हो गया। सुनील तथा अमित ने भविष्य में लाभों को 2 : 3 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। सामान्य संचय, ख्याति तथा पुनर्मूल्यांकन, आदि के संबंध में सभी समायोजन करने के पश्चात् रवि, सुनील तथा अमित के पूँजी खातों में क्रमशः ₹ 3,00,000; ₹ 2,40,000 तथा ₹ 3,60,000 के शेष थे। यह निर्णय लिया गया कि रवि को देय राशि सुनील तथा अमित इस प्रकार लाएँगे कि उनकी पूँजी उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में हो जाए। सुनील तथा अमित द्वारा लाई गई राशि होगी :

1

- (A) सुनील ₹ 1,00,000, अमित ₹ 2,00,000
(B) सुनील ₹ 1,20,000, अमित ₹ 1,80,000
(C) सुनील ₹ 1,50,000, अमित ₹ 1,50,000
(D) सुनील ₹ 80,000, अमित ₹ 2,20,000

14. ग्लेज़ लिमिटेड ने सिया लिमिटेड से ₹ 3,84,000 की भूमि तथा भवन खरीदा। क्रय प्रतिफल का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 8% ऋणपत्रों को 4% बट्टे पर निर्गमित करके किया गया। ग्लेज़ लिमिटेड द्वारा निर्गमित किए गए ऋणपत्रों की संख्या थी :

1

- (A) 3,200 (B) 3,840
(C) 4,800 (D) 4,000

15. (क) रीना तथा टीना एक फर्म की साझेदार थीं तथा 2 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष में टीना ने प्रत्येक माह के आरम्भ में ₹ 20,000 का आहरण किया। आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाना था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए टीना के आहरण पर ब्याज होगा :

1

- (A) ₹ 7,800 (B) ₹ 7,200
(C) ₹ 9,600 (D) ₹ 6,600

अथवा



13. Ravi, Sunil and Amit were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 5. On 1st April, 2025, Ravi retired. Sunil and Amit decided to share future profits in the ratio of 2 : 3. After all adjustments with respect to general reserve, goodwill and revaluation, etc., the balances in the capital accounts of Ravi, Sunil and Amit stood at ₹ 3,00,000; ₹ 2,40,000 and ₹ 3,60,000 respectively. It was decided that the amount payable to Ravi will be brought by Sunil and Amit in such a way so as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. The amount brought in by Sunil and Amit will be : 1
- (A) Sunil ₹ 1,00,000, Amit ₹ 2,00,000
(B) Sunil ₹ 1,20,000, Amit ₹ 1,80,000
(C) Sunil ₹ 1,50,000, Amit ₹ 1,50,000
(D) Sunil ₹ 80,000, Amit ₹ 2,20,000
14. Glaze Ltd. purchased land and building worth ₹ 3,84,000 from Sia Ltd. The purchase consideration was paid by issue of 8% Debentures of ₹ 100 each at 4% discount. The number of debentures issued by Glaze Ltd. was : 1
- (A) 3,200 (B) 3,840
(C) 4,800 (D) 4,000
15. (a) Reena and Teena were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 1. Teena withdrew ₹ 20,000 at the beginning of each month during the year ended 31st March, 2025. Interest on drawings was to be charged @ 6% per annum. Interest on Teena's drawings for the year ended 31st March, 2025 will be : 1
- (A) ₹ 7,800 (B) ₹ 7,200
(C) ₹ 9,600 (D) ₹ 6,600

OR



(ख) रोहन तथा सोहन एक फर्म के साझेदार थे तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष में रोहन ने प्रत्येक तिमाही के शुरू में ₹ 15,000 का आहरण किया। रोहन के आहरण पर कितनी औसत अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाएगी ?

1

- (A) 6 माह (B) $4\frac{1}{2}$ माह
(C) $7\frac{1}{2}$ माह (D) $6\frac{1}{2}$ माह

16. पी, क्यू तथा आर एक फर्म के साझेदार थे तथा 6 : 5 : 4 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। उन्होंने फर्म के लाभों में $\frac{1}{8}$ भाग के लिए एस को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। यह सहमति हुई कि क्यू अपना मूल भाग बनाए रखेगा। पी तथा आर का त्याग अनुपात होगा :

1

- (A) 6 : 5 (B) 4 : 5
(C) 3 : 2 (D) 5 : 4

17. शुभ, वंश तथा वीर एक फर्म के साझेदार थे तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटते थे। 31 मार्च, 2023 को वंश सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति की तिथि को, उसे ₹ 2,40,000 देय थे। 31 मार्च, 2024 से शुरू करके शुभ तथा वीर, वंश को दो बराबर वार्षिक किश्तों में अदत्त शेष राशि पर 10% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने पर सहमत हुए। फर्म अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है। पूर्ण भुगतान किए जाने तक वंश का ऋण खाता तैयार कीजिए।

3

18. (क) सेंचुरी लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 5,000 अंश जिन्हें 40% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया था, का ₹ 35 प्रति अंश की आबंटन राशि तथा ₹ 50 प्रति अंश (₹ 25 प्रीमियम सहित) की प्रथम याचना का भुगतान न करने पर हरण कर लिया। ₹ 40 प्रति अंश (₹ 15 प्रीमियम सहित) की दूसरी तथा अन्तिम याचना अभी तक माँगी नहीं गई थी। इनमें से, 3,000 अंशों को ₹ 90 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया गया। सेंचुरी लिमिटेड की पुस्तकों में अंशों के हरण तथा हरण किए गए अंशों के पुनःनिर्गमन की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

अथवा



(b) Rohan and Sohan were partners in a firm sharing profits and losses equally. Rohan withdrew ₹ 15,000 at the beginning of each quarter during the year ended 31st March, 2025. Interest on Rohan's drawings will be calculated for an average period of : 1

- (A) 6 months (B) $4\frac{1}{2}$ months
(C) $7\frac{1}{2}$ months (D) $6\frac{1}{2}$ months

16. P, Q and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6 : 5 : 4. They admitted S as a new partner for $\frac{1}{8}$ th share in the profits of the firm. It was agreed that Q would retain his original share. The sacrificing ratio of P and R will be : 1

- (A) 6 : 5 (B) 4 : 5
(C) 3 : 2 (D) 5 : 4

17. Shubh, Vansh and Veer were partners in a firm sharing profits and losses equally. On 31st March, 2023, Vansh retired. On the date of retirement, ₹ 2,40,000 became due to him. Shubh and Veer agreed to pay Vansh in two equal yearly instalments plus interest @ 10% p.a. on the unpaid balance starting from 31st March, 2024. The firm closes its books on 31st March every year.

Prepare Vansh's Loan Account till it is fully paid. 3

18. (a) Century Ltd. forfeited 5,000 shares of ₹ 100 each issued at 40% premium for non-payment of allotment money of ₹ 35 per share and first call of ₹ 50 per share (including premium ₹ 25). The second and final call of ₹ 40 per share (including premium ₹ 15) has not yet been called. Out of these, 3,000 shares were reissued as fully paid-up for ₹ 90 per share.

Pass necessary journal entries for forfeiture and reissue of forfeited shares in the books of Century Ltd. 3

OR



(ख) आलमंड लिमिटेड ने कैशू लिमिटेड का एक चालू व्यवसाय ₹ 1,00,00,000 के क्रय प्रतिफल में खरीदा जिसमें ₹ 85,00,000 की भूमि तथा भवन, ₹ 50,00,000 की मशीनरी तथा ₹ 10,00,000 की विविध देयताएँ सम्मिलित थीं। ₹ 10,00,000 का भुगतान बैंक द्वारा तथा शेष राशि का भुगतान ₹ 100 प्रत्येक के 11% ऋणपत्रों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया गया।

आलमंड लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

3

19. साक्षी तथा अनुमिता एक फर्म की साझेदार थीं तथा 2 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटती थीं। 1 अप्रैल, 2025 से, उन्होंने भविष्य में लाभ-हानि 4 : 1 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। इस तिथि को, उनका स्थिति विवरण आकस्मिकता संचय में ₹ 60,000 का शेष तथा लाभ-हानि खाते में ₹ 2,00,000 का डेबिट शेष दर्शा रहा था। साझेदारों ने आकस्मिकता संचय को बाँटने का निर्णय लिया, परन्तु लाभ-हानि खाते को प्रभावित न करने का निर्णय लिया, जो पुनर्गठित फर्म की पुस्तकों में चालू रहेगा।

फर्म के पुनर्गठन पर उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। अपना कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाइए।

3

20. (क) 1 अक्टूबर, 2024 को रोहित, आशीष तथा समीर ने क्रमशः ₹ 12,00,000; ₹ 6,00,000 तथा ₹ 6,00,000 की पूँजी के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया। उन्होंने लाभ-हानि 3 : 1 : 1 के अनुपात में बाँटने का निर्णय लिया। साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार साझेदार पूँजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज के हकदार थे।

समीर को गारंटी दी गई थी कि पूँजी पर ब्याज प्रभारित करने के पश्चात् लाभ में उसका भाग प्रति वर्ष ₹ 1,50,000 से कम नहीं होगा। इस कारण हुई किसी भी कमी को रोहित द्वारा वहन किया जाएगा। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ की राशि ₹ 5,60,000 थी। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए।

3

अथवा

(ख) तारा, देव तथा ईशान एक फर्म में साझेदार थे तथा 4 : 3 : 1 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। साझेदारी संलेख में आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष में तारा, देव तथा ईशान के आहरण क्रमशः ₹ 30,000; ₹ 18,000 तथा ₹ 12,000 थे। अन्तिम खाते तैयार करने के पश्चात्, यह ज्ञात हुआ कि आहरणों पर ब्याज को ध्यान में नहीं रखा गया। चूक के सुधार के लिए आवश्यक समायोजन रोज़नामचा प्रविष्टि दीजिए। अपना कार्य स्पष्ट रूप से दर्शाइए।

3



- (b) Almond Ltd. purchased a running business of Cashew Ltd. comprising of land and building ₹ 85,00,000, machinery ₹ 50,00,000 and sundry liabilities ₹ 10,00,000 for a purchase consideration of ₹ 1,00,00,000. Payment of ₹ 10,00,000 was made through a cheque and the remaining amount by issue of 11% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 20%.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Almond Ltd.

3

19. Sakshi and Anumita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2 : 3. From 1st April, 2025, they decided to share future profits and losses in the ratio of 4 : 1. On this date, their balance sheet showed a balance of ₹ 60,000 in Contingency Reserve and a debit balance of ₹ 2,00,000 in the Profit and Loss Account. The partners decided to distribute the Contingency Reserve, but decided not to disturb the Profit and Loss Account, which will continue in the books of the reconstituted firm.

Pass necessary journal entries for the above transactions on the reconstitution of the firm. Show your workings clearly.

3

20. (a) Rohit, Ashish and Sameer entered into a partnership on 1st October, 2024 with capitals of ₹ 12,00,000; ₹ 6,00,000 and ₹ 6,00,000 respectively. They decided to share the profits and losses in the ratio of 3 : 1 : 1. Partners were entitled to interest on capital @ 5% per annum as per the provisions of the partnership deed.

Sameer was given a guarantee that his share of profit, after charging interest on capital, will not be less than ₹ 1,50,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Rohit. The profit for the year ended 31st March, 2025 amounted to ₹ 5,60,000. Prepare Profit and Loss Appropriation Account for the year ended 31st March, 2025.

3

OR

- (b) Tara, Dev and Ishaan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The partnership deed provided for charging interest on drawings @ 10% p.a. The drawings of Tara, Dev and Ishaan during the year ending 31st March, 2025 amounted to ₹ 30,000; ₹ 18,000 and ₹ 12,000 respectively. After the final accounts were prepared, it was discovered that interest on drawings was not taken into consideration. Give necessary adjusting journal entry to correct the omission. Show your workings clearly.

3



21. 1 अप्रैल, 2024 को कविता लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 40,000, 9% ऋणपत्रों का निर्गमन 8% प्रीमियम पर किया, जिनका शोधन 5 वर्ष पश्चात् सममूल्य पर करना था। कम्पनी अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कविता लिमिटेड की पुस्तकों में ऋणपत्रों के निर्गमन, ऋणपत्रों पर ब्याज के भुगतान तथा ब्याज को अपलिखित करने की आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

4

22. अनमोल, कपीश तथा मीरा एक फर्म के साझेदार थे तथा 4 : 3 : 3 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। फर्म अपनी पुस्तकें प्रति वर्ष 31 मार्च को बंद करती है। 1 जुलाई, 2025 को कपीश की मृत्यु हो गई। उस तिथि को उसका पूँजी खाता ₹ 2,50,000 का क्रेडिट शेष दर्शा रहा था तथा उसने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आज की तिथि तक ₹ 20,000 का आहरण किया था। कपीश की मृत्यु की तिथि को, फर्म के पास ₹ 90,000 का सामान्य संचय था। साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि एक साझेदार की मृत्यु पर उसके निष्पादक निम्नलिखित के हकदार होंगे :

(i) उसके पूँजी खाते में शेष तथा उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज।

(ii) फर्म की ख्याति में उसका भाग। कपीश की मृत्यु पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 1,40,000 किया गया।

(iii) फर्म के लाभों में उसके भाग की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाएगी। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का लाभ ₹ 6,00,000 था।

उसके निष्पादकों को प्रस्तुत करने के लिए कपीश का पूँजी खाता तैयार कीजिए।

4

23. (क) आस्था लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। प्रति अंश राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर ₹ 2; आबंटन पर ₹ 3; प्रथम याचना पर ₹ 3 तथा दूसरी एवं अन्तिम याचना पर ₹ 2।

1,50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 30,000 अंशों के लिए आवेदनों को रद्द कर दिया गया तथा आवेदन राशि वापस कर दी गई। 1,20,000 अंशों के आवेदकों को आनुपातिक आधार पर अंशों का आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन आबंटन पर देय राशि में कर लिया गया। सार्थक को छोड़कर, जिसे 2,000 अंशों का आबंटन किया गया था, सभी अंशधारकों ने आबंटन राशि का भुगतान कर दिया। इन अंशों का हरण कर लिया गया। इसके पश्चात् प्रथम याचना माँगी गई तथा यथावत प्राप्त हो गई। दूसरी तथा अन्तिम याचना अभी तक माँगी नहीं गई थी।

आस्था लिमिटेड की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। जहाँ आवश्यक हो अदत्त याचना खाता खोलिए।

6

अथवा



21. On 1st April, 2024, Kavita Ltd. issued 40,000, 9% Debentures of ₹ 100 each at a premium of 8%, redeemable at par after 5 years. The company closes its books on 31st March every year.

Pass necessary journal entries in the books of Kavita Ltd. for issue of debentures, payment of interest on debentures and writing off interest for the year ended 31st March, 2025.

4

22. Anmol, Kapeesh and Meera were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 3. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st July, 2025, Kapeesh died. On that date his capital account showed a credit balance of ₹ 2,50,000 and he had withdrawn ₹ 20,000 till that date for personal use. On the date of Kapeesh's death, the firm had a General Reserve of ₹ 90,000. The partnership deed provided that on the death of a partner, his executors will be entitled to the following :

- (i) Balance in the capital account and interest on the same @ 12% p.a.
- (ii) His share in the goodwill of the firm. The goodwill of the firm on Kapeesh's death was valued at ₹ 1,40,000.
- (iii) His share in the profits of the firm was to be calculated on the basis of previous year's profit. The profit of the firm for the year ended 31st March, 2025 was ₹ 6,00,000.

Prepare Kapeesh's Capital Account to be presented to his executors.

4

23. (a) Astha Ltd. invited applications for issuing 1,00,000 equity shares of ₹ 10 each. The amount per share was payable as follows :
₹ 2 on application; ₹ 3 on allotment; ₹ 3 on first call and ₹ 2 on second and final call.

Applications were received for 1,50,000 shares. Applications for 30,000 shares were rejected and application money refunded. The shares were allotted on pro-rata basis to the applicants of 1,20,000 shares. Excess money received with applications was adjusted towards sums due on allotment. All shareholders paid the allotment money except Sarthak, who was allotted 2,000 shares. These shares were forfeited. The first call was made thereafter and duly received. The second and final call was not yet made.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Astha Ltd. Open Calls-in-Arrears Account, wherever required.

6

OR



(ख) ओरिअॅन इन्टरप्राइजेज लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 70,000 समता अंशों को ₹ 1 प्रति अंश के प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर – ₹ 4 प्रति अंश (₹ 1 प्रति अंश प्रीमियम सहित)

आबंटन पर – ₹ 6 प्रति अंश

प्रथम तथा अन्तिम याचना पर – शेष

2,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। आबंटन निम्न प्रकार से किया गया :

श्रेणी A : 1,20,000 अंशों के आवेदकों को 60,000 अंशों का आबंटन किया गया।

श्रेणी B : 80,000 अंशों के आवेदकों को 10,000 अंशों का आबंटन किया गया।

आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन केवल आबंटन पर देय राशि में किया गया।

श्रेणी A से मीता, जिसे 500 अंशों का आबंटन किया गया था, आबंटन राशि तथा प्रथम एवं अन्तिम याचना का भुगतान करने में असफल रही और श्रेणी B से जपना, जिसने 1,600 अंशों के लिए आवेदन किया था, प्रथम एवं अन्तिम याचना राशि का भुगतान करने में असफल रही।

उपर्युक्त लेनदेनों के लिए ओरिअॅन इन्टरप्राइजेज लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।

6

24. ब्राइट मोटर्स लिमिटेड ₹ 100 प्रत्येक के समता अंशों में विभक्त ₹ 10,00,00,000 की अधिकृत पूँजी के साथ पंजीकृत थी। कम्पनी ने जनता के अभिदान के लिए 3,00,000 अंश निर्गमित किए। राशि का भुगतान निम्न प्रकार से देय था :

आवेदन पर – ₹ 30 प्रति अंश

आबंटन पर – ₹ 50 प्रति अंश

प्रथम एवं अन्तिम याचना पर – शेष

सभी अंश पूर्ण अभिदत्त थे। सभी राशियाँ यथावत प्राप्त हो गईं, केवल रमन को छोड़कर, जो 500 अंशों का धारक था, तथा जो प्रथम एवं अन्तिम याचना का भुगतान करने में असफल रहा।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) अंशों की वह कुल संख्या जिसमें कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी विभक्त है, है :

1

(A) 10,00,00,000

(B) 1,00,00,000

(C) 10,00,000

(D) 3,00,000



- (b) Orion Enterprises Ltd. invited applications for issue of 70,000 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 1 per share. The amount was payable as follows :

On Application – ₹ 4 per share (including premium ₹ 1 per share)

On Allotment – ₹ 6 per share

On First and final call – Balance

Applications were received for 2,00,000 shares. Allotment was made as under :

Category A : Applicants for 1,20,000 shares were allotted 60,000 shares.

Category B : Applicants for 80,000 shares were allotted 10,000 shares.

Excess money received with applications was adjusted towards sums due on allotment only. Meeta, from category A, who was allotted 500 shares, failed to pay allotment money and first and final call and Japna, from category B, who had applied for 1,600 shares, failed to pay the first and final call money.

Pass necessary journal entries in the books of Orion Enterprises Ltd. for the above transactions.

6

24. Bright Motors Ltd. was registered with an authorised capital of ₹ 10,00,00,000 divided into equity shares of ₹ 100 each. The company issued 3,00,000 shares to the public for subscription. The amount was payable as follows :

On application – ₹ 30 per share

On allotment – ₹ 50 per share

On first and final call – balance

All the shares were fully subscribed. All amounts were duly received except from Raman, a holder of 500 shares, who failed to pay the first and final call.

Answer the following questions :

- (i) Total number of shares into which the authorised share capital of the company is divided, is :

(A) 10,00,00,000

(B) 1,00,00,000

(C) 10,00,000

(D) 3,00,000

1



- (ii) ब्राइट मोटर्स लिमिटेड की 'अभिदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त पूँजी' की राशि होगी : 1
- (A) ₹ 2,99,50,000 (B) ₹ 3,00,00,000
- (C) ₹ 10,00,00,000 (D) ₹ 2,99,90,000
- (iii) ब्राइट मोटर्स लिमिटेड की 'अभिदत्त परन्तु पूर्ण प्रदत्त नहीं पूँजी' की राशि होगी : 1
- (A) ₹ 2,99,90,000 (B) ₹ 2,99,50,000
- (C) ₹ 3,00,00,000 (D) ₹ 40,000
- (iv) ब्राइट मोटर्स लिमिटेड के स्थिति विवरण में प्रस्तुत की जाने वाली 'अंश पूँजी' की राशि होगी : 1
- (A) ₹ 3,00,00,000 (B) ₹ 2,99,50,000
- (C) ₹ 2,99,90,000 (D) ₹ 10,00,00,000
- (v) यदि भुगतान न करने वाले 500 अंशों का हरण कर लिया जाए, तब 'खातों के नोट्स' में 'अंश हरण खाता' दर्शाया जाएगा : 1
- (A) ₹ 10,000 पर (B) ₹ 40,000 पर
- (C) ₹ 50,000 पर (D) ₹ 5,000 पर
- (vi) यदि हरण किए गए सभी अंशों को ₹ 90 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनःनिर्गमित कर दिया जाए, तब पूँजी संचय खाते में क्रेडिट की गई राशि होगी : 1
- (A) ₹ 35,000 (B) ₹ 40,000
- (C) ₹ 10,000 (D) ₹ 50,000



- (ii) Amount of 'Subscribed and fully paid-up capital' of Bright Motors Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 2,99,50,000 (B) ₹ 3,00,00,000
(C) ₹ 10,00,00,000 (D) ₹ 2,99,90,000
- (iii) Amount of 'Subscribed but not fully paid-up capital' of Bright Motors Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 2,99,90,000 (B) ₹ 2,99,50,000
(C) ₹ 3,00,00,000 (D) ₹ 40,000
- (iv) Amount of 'Share Capital' to be presented in the Balance Sheet of Bright Motors Ltd. will be : 1
- (A) ₹ 3,00,00,000 (B) ₹ 2,99,50,000
(C) ₹ 2,99,90,000 (D) ₹ 10,00,00,000
- (v) If the defaulting 500 shares are forfeited, 'Share Forfeiture Account' will be shown in the 'Notes to Accounts' at : 1
- (A) ₹ 10,000 (B) ₹ 40,000
(C) ₹ 50,000 (D) ₹ 5,000
- (vi) If all the forfeited shares are reissued @ ₹ 90 per share fully paid-up, the amount credited to Capital Reserve Account will be : 1
- (A) ₹ 35,000 (B) ₹ 40,000
(C) ₹ 10,000 (D) ₹ 50,000



25. (क) अर्जुन तथा काव्या एक फर्म के साझेदार थे तथा 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

31 मार्च, 2025 को अर्जुन तथा काव्या का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी :		भवन	6,00,000
अर्जुन 4,80,000		निवेश	2,80,000
काव्या <u>5,20,000</u>	10,00,000	स्टॉक	3,76,000
निवेश उतार-चढ़ाव कोष (संचय)	1,00,000	देनदार	1,60,000
लेनदार	4,00,000	घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	<u>7,000</u>
		नगद	91,000
	<u>15,00,000</u>		<u>15,00,000</u>

1 अप्रैल, 2025 को निम्नलिखित शर्तों पर राघव को लाभों में $\frac{1}{4}$ भाग के लिए एक नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश दिया गया :

- राघव अपनी पूँजी के रूप में ₹ 5,00,000 लाएगा।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 4,00,000 किया गया। राघव ख्याति प्रीमियम का अपना भाग नगद में नहीं ला सका।
- संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 10% का प्रावधान करना था।
- निवेशों का मूल्यांकन ₹ 2,00,000 किया गया तथा भवन को ₹ 5,00,000 तक नीचे लाया गया।
- अर्जुन तथा काव्या की पूँजी का समायोजन व्यवसाय में राघव की पूँजी के आधार पर किया जाना था। स्थिति अनुसार आवश्यक वास्तविक नगद पुराने साझेदारों को भुगतान किया जाना था अथवा उनके द्वारा लाया जाएगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता तथा साझेदारों के पूँजी खाते तैयार कीजिए।

अथवा



25. (a) Arjun and Kavya were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their Balance Sheet as at 31st March, 2025 was as follows :

Balance Sheet of Arjun and Kavya as at 31st March, 2025

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Building	6,00,000
Arjun 4,80,000		Investments	2,80,000
Kavya <u>5,20,000</u>	10,00,000	Stock	3,76,000
Investment		Debtors 1,60,000	
Fluctuation Reserve	1,00,000	Less : Provision for doubtful debts <u>7,000</u>	1,53,000
Creditors	4,00,000	Cash	91,000
	<u>15,00,000</u>		<u>15,00,000</u>

On 1st April, 2025, Raghav was admitted as a new partner for $\frac{1}{4}$ th share in the profits of the firm on the following terms :

- Raghav shall bring ₹ 5,00,000 as his capital.
- Goodwill of the firm was valued at ₹ 4,00,000. Raghav was unable to bring his share of goodwill premium in cash.
- Provision for doubtful debts was to be created @ 10% on debtors.
- Investments were valued at ₹ 2,00,000 and building was to be brought down to ₹ 5,00,000.
- Capitals of Arjun and Kavya were to be adjusted on the basis of Raghav's capital in the business. Actual cash was to be paid off or brought in by the old partners as the case may be.

Prepare Revaluation Account and Partners' Capital Accounts.

6

OR



(ख) आरव, कुनाल तथा मानव एक फर्म के साझेदार थे तथा 5 : 3 : 2 के अनुपात में लाभ-हानि बाँटते थे। 31 मार्च, 2025 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

31 मार्च, 2025 को आरव, कुनाल तथा मानव का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
विविध लेनदार	70,000	नगद	2,30,000
कामगार क्षतिपूर्ति कोष (संचय)	1,00,000	देनदार 90,000	
पूँजी :		घटा : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान <u>10,000</u>	80,000
आरव 3,00,000		स्टॉक	1,60,000
कुनाल 2,50,000		मशीनरी	2,50,000
मानव <u>1,50,000</u>	7,00,000	भवन	1,50,000
	<u>8,70,000</u>		<u>8,70,000</u>

उपर्युक्त तिथि को आरव सेवानिवृत्त हो गया तथा इस पर सहमति हुई कि :

- कुनाल तथा मानव भविष्य के लाभों को 1 : 4 के अनुपात में बाँटेंगे।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 6,00,000 किया जाएगा तथा सेवानिवृत्त साझेदार के भाग का समायोजन शेष साझेदारों के पूँजी खातों के माध्यम से किया जाएगा।
- ₹ 20,000 के एक अलिखित लेनदार का लेखा किया जाएगा।
- ₹ 15,000 के देनदारों को डूबत ऋणों के रूप में अपलिखित किया जाएगा।
- कामगार क्षतिपूर्ति के खाते पर देयता ₹ 40,000 थी।
- आरव को देय राशि का हस्तांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया गया।

आरव की सेवानिवृत्ति पर फर्म की पुस्तकों में उपर्युक्त लेनदेनों के लिए आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ कीजिए।



- (b) Aarav, Kunal and Manav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. Their Balance Sheet as at 31st March, 2025 was as follows :

**Balance Sheet of Aarav, Kunal and Manav as at
31st March, 2025**

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Sundry Creditors	70,000	Cash	2,30,000
Workmen Compensation Reserve	1,00,000	Debtors 90,000 Less : Provision for doubtful debts <u>10,000</u>	80,000
Capitals :		Stock	1,60,000
Aarav 3,00,000		Machinery	2,50,000
Kunal 2,50,000		Building	1,50,000
Manav <u>1,50,000</u>	7,00,000		
	<u>8,70,000</u>		<u>8,70,000</u>

Aarav retired on the above date and it was agreed that :

- (i) Kunal and Manav will share future profits in the ratio of 1 : 4.
- (ii) Goodwill of the firm be valued at ₹ 6,00,000 and the retiring partner's share would be adjusted through the capital accounts of the remaining partners.
- (iii) An unrecorded creditor of ₹ 20,000 was to be taken into account.
- (iv) Debtors of ₹ 15,000 were to be written off as bad debts.
- (v) Liability on account of workmen compensation amounted to ₹ 40,000.
- (vi) Amount payable to Aarav was transferred to his loan account.

Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on Aarav's retirement.



26. झलक तथा अर्श एक फर्म की साझेदार थीं तथा लाभ-हानि बराबर-बराबर बाँटती थीं। 31 मार्च, 2025 को उनका स्थिति विवरण निम्न प्रकार था :

31 मार्च, 2025 को झलक तथा अर्श का स्थिति विवरण

देयताएँ	राशि (₹)	परिसम्पत्तियाँ	राशि (₹)
पूँजी :		मशीनरी	12,00,000
झलक 8,00,000		निवेश	8,00,000
अर्श <u>12,00,000</u>	20,00,000	देनदार	15,00,000
झलक का ऋण	5,00,000	स्टॉक	5,00,000
लेनदार	13,00,000	बैंक में नगद	5,00,000
श्रीमती अर्श का ऋण	7,00,000		
	<u>45,00,000</u>		<u>45,00,000</u>

उपर्युक्त तिथि को फर्म का विघटन हो गया तथा निम्नलिखित लेनदेन हुए :

- (i) लेनदारों ने अपने दावे के पूर्ण निपटान में देनदार ले लिए।
- (ii) अर्श ने श्रीमती अर्श के ऋण के भुगतान की सहमति दी।
- (iii) अर्श ने पुस्तक मूल्य के 90% पर निवेश ले लिए।
- (iv) मशीनरी की 20% बट्टे पर वसूली हुई।
- (v) 50% स्टॉक को 20% के लाभ पर बेचा गया तथा शेष को झलक ने 10% बट्टे पर ले लिया।
- (vi) ₹ 20,000 वसूली व्ययों का भुगतान झलक ने किया।

वसूली खाता तैयार कीजिए।



26. Jhalak and Arsh were partners in a firm sharing profits and losses equally. Their Balance Sheet as at 31st March, 2025 was as follows :

Balance Sheet of Jhalak and Arsh as at 31st March, 2025

Liabilities	Amount (₹)	Assets	Amount (₹)
Capitals :		Machinery	12,00,000
Jhalak 8,00,000		Investments	8,00,000
Arsh <u>12,00,000</u>	20,00,000	Debtors	15,00,000
Jhalak's Loan	5,00,000	Stock	5,00,000
Creditors	13,00,000	Cash at bank	5,00,000
Mrs. Arsh's Loan	7,00,000		
	<u>45,00,000</u>		<u>45,00,000</u>

The firm was dissolved on the above date and the following transactions took place :

- (i) Debtors were taken over by Creditors in full settlement of their account.
- (ii) Arsh agreed to pay off Mrs. Arsh's loan.
- (iii) Investments were taken over by Arsh at 90% of book value.
- (iv) Machinery was realised at 20% discount.
- (v) 50% of the stock was sold at a profit of 20% and the balance was taken over by Jhalak at 10% discount.
- (vi) Realisation expenses were ₹ 20,000 which were paid by Jhalak.

Prepare Realisation Account.

6



भाग ख
विकल्प I
(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

27. एक कम्पनी का ऋण-समता अनुपात 2 : 1 है। निम्नलिखित में से कौन-से लेनदेन से ऋण-समता अनुपात में वृद्धि होगी ? 1

- (A) ₹ 2,00,000 के अंशों का निर्गमन
- (B) ₹ 5,00,000 के 8% ऋणपत्रों का निर्गमन
- (C) ₹ 4,00,000 के बोनस अंशों का निर्गमन
- (D) लेनदारों को ₹ 1,00,000 का भुगतान

28. (क) निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ? 1

- I. एक निम्न चालू अनुपात व्यवसाय के लिए संकट की स्थिति है तथा इसे जोखिम झेलने जैसी स्थिति में पहुँचाता है, जहाँ यह समय पर अपने लघुकालीन ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा।
- II. व्यापारिक देय आवर्त अनुपात शुद्ध उधार विक्रय तथा औसत व्यापारिक देयों के मध्य संबंध का वर्णन करता है।
- III. प्रचालन लाभ अनुपात जमा सकल लाभ अनुपात = 100.
- IV. इन्वेन्ट्री (स्टॉक) आवर्त अनुपात यह निर्धारित करता है कि विचाराधीन लेखा अवधि के दौरान इन्वेन्ट्री (स्टॉक) कितनी बार प्रचालन से आगम में परिवर्तित होती है।

विकल्प :

- (A) I तथा II (B) II तथा III
- (C) III तथा IV (D) I तथा IV

अथवा



PART B
Option I
(Analysis of Financial Statements)

27. The Debt-Equity Ratio of a company is 2 : 1. Which of the following transactions will increase the Debt-Equity Ratio ? 1

- (A) Issue of Shares ₹ 2,00,000
- (B) Issue of 8% Debentures ₹ 5,00,000
- (C) Issue of Bonus shares ₹ 4,00,000
- (D) Payment to Creditors ₹ 1,00,000

28. (a) Which of the following statements are correct ? 1

- I. A low current ratio endangers the business and puts it at risk of facing a situation, where it will not be able to pay its short-term debts on time.
- II. Trade payables turnover ratio expresses the relationship between net credit sales and average trade payables.
- III. Operating profit ratio plus Gross profit ratio = 100.
- IV. Inventory turnover ratio determines the number of times inventory is converted into revenue from operations during the accounting period under consideration.

Options :

- (A) I and II
- (B) II and III
- (C) III and IV
- (D) I and IV

OR



(ख) वे अनुपात जिनकी गणना संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर आधारित व्यवसाय के प्रचालनों की कुशलता को मापने के लिए की जाती है, कहलाते हैं :

1

- (A) आवर्त अनुपात
- (B) लाभप्रदता अनुपात
- (C) ऋणशोधन क्षमता अनुपात
- (D) तरलता/द्रवता अनुपात

29. कथन I : एक वित्त कम्पनी, क्विक क्रेडिट लिमिटेड, ने उधार पर ₹ 80,000 के ब्याज का भुगतान किया। इसे रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रचालन गतिविधियों से हुए रोकड़ बहिर्वाह के रूप में दर्शाया जाएगा।

कथन II : एक गैर-वित्तीय उद्यम, रॉयल फूड्स लिमिटेड, ने ₹ 2,30,000 के लाभांश का भुगतान किया। इसे रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रचालन गतिविधियों से हुए रोकड़ बहिर्वाह के रूप में दर्शाया जाएगा।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

1

- (A) कथन I सत्य है तथा कथन II असत्य है।
- (B) कथन I असत्य है तथा कथन II सत्य है।
- (C) दोनों कथन सत्य हैं।
- (D) दोनों कथन असत्य हैं।

30. (क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एक्सवार्डजैड लिमिटेड के नगद प्रवाह के विषय में निम्नलिखित सूचना प्राप्त की गई :

प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ अन्तर्वाह ₹ 28,000; निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया रोकड़ ₹ 32,000 और वित्तीयन गतिविधियों से रोकड़ अन्तर्वाह ₹ 5,000 था। यदि 1 अप्रैल, 2024 को रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य का आरम्भिक शेष ₹ 25,000 था, तब 31 मार्च, 2025 को रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य का अंतिम शेष होगा :

1

- (A) ₹ 90,000
- (B) ₹ 6,000
- (C) ₹ 26,000
- (D) ₹ 70,000

अथवा



(b) Ratios that are calculated for measuring the efficiency of operations of business based on effective utilisation of resources are called :

1

- (A) Turnover ratios
- (B) Profitability ratios
- (C) Solvency ratios
- (D) Liquidity ratios

29. *Statement I:* Quick Credit Ltd., a finance company, paid interest on borrowings amounting to ₹ 80,000. This will be shown as cash outflow from operating activities in its Cash Flow Statement.

Statement II: Royal Foods Ltd., a non-financial enterprise, paid dividends amounting to ₹ 2,30,000. It will be shown as cash outflow from operating activities in its Cash Flow Statement.

Choose the correct option from the following :

1

- (A) Statement I is true and Statement II is false.
- (B) Statement I is false and Statement II is true.
- (C) Both the Statements are true.
- (D) Both the Statements are false.

30. (a) The following information was obtained about the cash flows of XYZ Ltd. for the year ended 31st March, 2025 :

Cash inflows from operating activities ₹ 28,000; cash used in investing activities ₹ 32,000 and cash inflows from financing activities ₹ 5,000. If the opening balance of cash and cash equivalents on 1st April, 2024 was ₹ 25,000, the closing balance of cash and cash equivalents on 31st March, 2025 will be :

1

- (A) ₹ 90,000
- (B) ₹ 6,000
- (C) ₹ 26,000
- (D) ₹ 70,000

OR



(ख) पीक्यूआर लिमिटेड की पुस्तकों से निम्नलिखित सूचना प्राप्त की गई :

31 मार्च, 2024 को लाभ-हानि खाता शेष : ₹ 30,000 (डेबिट)

31 मार्च, 2025 को लाभ-हानि खाता शेष : ₹ 56,000 (क्रेडिट)

वर्ष के दौरान अन्तरिम लाभांश भुगतान : ₹ 36,000

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ होगा :

1

(A) ₹ 86,000

(B) ₹ 62,000

(C) ₹ 1,22,000

(D) ₹ 50,000

31. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार कम्पनी के स्थिति विवरण में निम्नलिखित मदों को मुख्य शीर्षकों तथा उप-शीर्षकों (यदि कोई है) के अन्तर्गत वर्गीकृत कीजिए :

3

(क) लाइसेंस तथा फ्रैंचाइज

(ख) पूँजीगत अग्रिम

(ग) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे

32. निम्नलिखित सूचना से, 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वाईएक्स लिमिटेड का तुलनात्मक लाभ-हानि विवरण तैयार कीजिए :

3

विवरण	2024 – 25 (₹)	2023 – 24 (₹)
प्रचालनों से आगम	30,00,000	20,00,000
अन्य आय (प्रचालनों से आगम का %)	60%	50%
कर्मचारी हितलाभ व्यय	12,00,000	6,00,000
कर दर	40%	



(b) The following information was obtained from the books of PQR Ltd. :

Profit and Loss balance (Dr.) as at 31st March, 2024 : ₹ 30,000

Profit and Loss balance (Cr.) as at 31st March, 2025 : ₹ 56,000

Interim Dividend paid during the year : ₹ 36,000

The net profit before taxation for the year ended 31st March, 2025 will be :

1

(A) ₹ 86,000

(B) ₹ 62,000

(C) ₹ 1,22,000

(D) ₹ 50,000

31. Classify the following items under major heads and sub-heads (if any) in the Balance Sheet of the company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013 :

3

(a) Licenses and Franchise

(b) Capital Advance

(c) Stores and Spares

32. From the following information, prepare a Comparative Statement of Profit and Loss of YX Ltd. for the year ended 31st March, 2025 :

3

Particulars	2024 – 25 (₹)	2023 – 24 (₹)
Revenue from Operations	30,00,000	20,00,000
Other Income (% of Revenue from Operations)	60%	50%
Employee Benefit Expenses	12,00,000	6,00,000
Tax Rate	40%	



33. (क) (i) निम्नलिखित सूचना से प्रचालनों से आगम की गणना कीजिए :
औसत इन्वेन्ट्री (स्टॉक) – ₹ 1,20,000
इन्वेन्ट्री (स्टॉक) आवर्त अनुपात – 8 गुना
माल को प्रचालनों से आगम के 20% लाभ पर बेचा जाता है

- (ii) निम्नलिखित सूचना से व्यापारिक देय आवर्त अनुपात की गणना कीजिए : 4
2024 – 25 के दौरान उधार क्रय : ₹ 24,00,000
1 अप्रैल, 2024 को लेनदार : ₹ 3,00,000
1 अप्रैल, 2024 को देय विपत्र : ₹ 2,00,000
31 मार्च, 2025 को लेनदार : ₹ 4,80,000
31 मार्च, 2025 को देय विपत्र : ₹ 2,20,000

अथवा

- (ख) नीचे दिए गए विवरणों से, गणना कीजिए : 4

- (i) तरल (त्वरित) अनुपात
(ii) कार्यशील पूँजी आवर्त अनुपात

व्यापारिक प्राप्य	:	₹ 5,00,000
इन्वेन्ट्री (स्टॉक)	:	₹ 2,40,000
विपणन-योग्य प्रतिभूति	:	₹ 1,20,000
नगद	:	₹ 80,000
पूर्वदत्त व्यय	:	₹ 60,000
देय विपत्र	:	₹ 1,20,000
विविध लेनदार	:	₹ 2,40,000
देय व्यय	:	₹ 1,40,000
ऋणपत्र	:	₹ 3,00,000
प्रचालनों से आगम	:	₹ 24,00,000



33. (a) (i) Calculate Revenue from Operations from the following information :

Average inventory – ₹ 1,20,000

Inventory turnover ratio – 8 times

Goods are sold at a profit of 20% on revenue from operations

(ii) Calculate Trade Payables Turnover Ratio from the following information :

4

Credit purchases during 2024 – 25 : ₹ 24,00,000

Creditors on 1st April, 2024 : ₹ 3,00,000

Bills Payables on 1st April, 2024 : ₹ 2,00,000

Creditors on 31st March, 2025 : ₹ 4,80,000

Bills Payables on 31st March, 2025 : ₹ 2,20,000

OR

(b) From the details given below, calculate :

4

(i) Quick Ratio

(ii) Working Capital Turnover Ratio

Trade Receivables : ₹ 5,00,000

Inventory : ₹ 2,40,000

Marketable Securities : ₹ 1,20,000

Cash : ₹ 80,000

Prepaid Expenses : ₹ 60,000

Bills Payable : ₹ 1,20,000

Sundry Creditors : ₹ 2,40,000

Expenses Payable : ₹ 1,40,000

Debentures : ₹ 3,00,000

Revenue from Operations : ₹ 24,00,000



34. (क) निम्नलिखित सूचना से, निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

विवरण	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
मशीनरी (लागत पर)	6,00,000	2,60,000
एकत्रित मूल्यहास	1,00,000	35,000

अतिरिक्त सूचना :

वर्ष के दौरान ₹ 80,000 लागत की एक मशीन को, जिस पर एकत्रित मूल्यहास ₹ 20,000 था, 20% हानि पर बेचा गया।

(ख) निम्नलिखित सूचना से, वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए :

विवरण	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
समता अंश पूँजी	15,00,000	10,00,000
10% ऋणपत्र	11,00,000	8,00,000
बैंक अधिविकर्ष	3,00,000	2,00,000
बैंक में रोकड़	78,000	54,000

अतिरिक्त सूचना :

1 अक्टूबर, 2024 को ₹ 3,00,000, 10% ऋणपत्रों का निर्गमन किया गया।

6



34. (a) From the following information, calculate Cash Flows from Investing Activities :

Particulars	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
Machinery (At Cost)	6,00,000	2,60,000
Accumulated Depreciation	1,00,000	35,000

Additional Information :

During the year, a machine costing ₹ 80,000 on which accumulated depreciation was ₹ 20,000, was sold at a loss of 20%.

- (b) From the following information, calculate Cash Flows from Financing Activities :

Particulars	31.03.2025 (₹)	31.03.2024 (₹)
Equity Share Capital	15,00,000	10,00,000
10% Debentures	11,00,000	8,00,000
Bank Overdraft	3,00,000	2,00,000
Cash at Bank	78,000	54,000

Additional Information :

₹ 3,00,000, 10% Debentures were issued on 1st October, 2024.

6



भाग ख
विकल्प II
(अभिकलित्र लेखांकन)

27. यह व्यापक रूप से स्वीकार्य सुरक्षा नियन्त्रण है। यह डेटा-आधार तक पहुँचने के लिए भंडारण का बाइनरी एनकोडिंग प्रारूप उपयोग करता है। यह जाना जाता है :

1

- (A) पासवर्ड सुरक्षा (B) डेटा अंकेक्षण
(C) डेटा वॉल्ट (D) डेटा पूर्णता

28. (क) स्थायी परिसम्पत्ति लेखांकन उप-प्रणाली निम्नलिखित में से किसके विषय में सूचना उत्पन्न करती है :

1

- (A) ऋण
(B) क्रय व्यय
(C) मूल्यहास
(D) खरीदी गई मालसूची (इंवेन्ट्री)

अथवा

(ख) एक कॉलम चार्ट को पाई चार्ट में बदला जा सकता है क्योंकि :

1

- I. इसे प्लॉट करने के लिए केवल एक डेटा श्रृंखला का उपयोग किया जाता है।
II. प्लॉट किए गए डेटा मूल्य सकारात्मक होते हैं।
III. डेटा मूल्य शून्य के बराबर भी नहीं होते हैं।
IV. सात से अधिक डेटा वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

सही विकल्प की पहचान कीजिए :

- (A) बिन्दु I को छोड़कर सभी सही हैं।
(B) बिन्दु II को छोड़कर सभी सही हैं।
(C) बिन्दु III को छोड़कर सभी सही हैं।
(D) बिन्दु IV को छोड़कर सभी सही हैं।



PART B
Option II
(Computerised Accounting)

- 27.** It is a widely accepted security control. It uses binary encoding format of storage to offer access to database. It is known as : 1
- (A) Password security (B) Data audit
(C) Data vault (D) Data integrity

- 28.** (a) Fixed Asset Accounting sub-system generates information about : 1
- (A) Loans
(B) Purchase expenses
(C) Depreciation
(D) Inventory purchased

OR

- (b) A column chart can be changed to a pie chart because : 1
- I. Only one data series is used to plot it.
II. The plotted data values are positive.
III. The data values are not equal to zero also.
IV. More than seven categories of data can be represented.

Identify the correct option :

- (A) All except point I are correct.
(B) All except point II are correct.
(C) All except point III are correct.
(D) All except point IV are correct.



29. (क) बड़े व्यावसायिक संगठन के बहु-उपयोगकर्ताओं तथा भौगोलिक रूप से बिखरे हुए स्थानों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाला लेखांकन सॉफ्टवेयर होता है : 1
- (A) जेनेरिक (जातिगत) सॉफ्टवेयर (B) टेलर्ड सॉफ्टवेयर
(C) विशिष्ट सॉफ्टवेयर (D) (A) तथा (C) दोनों

अथवा

- (ख) एक्सेल रिबन के सूत्र टेब पर निम्नलिखित में से कौन-सा **नहीं** होता है ? 1
- (A) पृष्ठ लेआउट (B) कार्य पुस्तकालय
(C) परिभाषित नाम (D) गणनाएँ
30. A1 : E2 का तात्पर्य है : 1
- (A) एक्सेल शीट पर पंक्तियाँ
(B) आरम्भिक बिन्दु A1 से अन्तिम बिन्दु E2 के मध्य सेल
(C) एक्सेल शीट पर स्तम्भ
(D) A से E के मध्य वर्णमाला व्यवस्था

31. प्रमाणक प्रविष्टि करने के लिए वह तीन वर्ग कौन-से होते हैं जिनमें प्रविष्टियों को वर्गीकृत किया जा सकता है ? 3

32. 'रडार चार्ट' क्या होता है ? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है ? 3

33. (क) सशर्त प्रारूप को परिवर्तित करते समय 'न्यूनतम' तथा 'अधिकतम' प्रकार का चयन करने के लिए कौन-से विकल्प उपलब्ध होते हैं ? 4

अथवा

- (ख) कंप्यूटर स्क्रीन दर्शाता है सही कीजिए #DIV/0! त्रुटि जब एक संख्या को गणना में शून्य से विभक्त किया जाता है। इस त्रुटि को दर्शाने के लिए कारण दीजिए (यहाँ दिए गए के अतिरिक्त)। इस त्रुटि को शुद्ध करने के लिए संभावित समाधानों का भी उल्लेख कीजिए। 4
34. 'HLOOKUP' क्या है ? यह 'VLOOKUP' से कैसे भिन्न है ? इसके वाक्यांश समझाइए। 6



29. (a) The accounting software which satisfies the requirement of large business organisations with multiusers and geographically scattered locations is : 1

- (A) Generic software (B) Tailored software
(C) Specific software (D) Both (A) and (C)

OR

(b) Which of the following is *not* contained on formula tab on Excel ribbon ? 1

- (A) Page layout (B) Function library
(C) Defined names (D) Calculations

30. A1 : E2 refers to : 1

- (A) Rows on Excel sheet
(B) Cells between starting point A1 to ending point E2
(C) Column on Excel sheet
(D) Alphabetic arrangement between A to E

31. What are the three categories in which entries can be classified while making voucher entry ? 3

32. What is a 'Radar Chart' ? What purpose does it serve ? 3

33. (a) What are the options available to select 'Minimum' and 'Maximum' type while changing conditional format ? 4

OR

(b) The computer screen shows correct a #DIV/0! Error when a number is divided by zero in the calculations. Give the reason for showing this error (except the one given here). Also state the possible solutions to correct this error. 4

34. What is 'HLOOKUP' ? How it is different from 'VLOOKUP' ? Explain its syntax. 6